

राजभाषा विभाग की मार्च, 2018 माह की मुख्य उपलब्धियां

- (i) दिनांक 10.03.2018 को सचिव (राजभाषा) की अध्यक्षता में पटना में पूर्व एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए राजभाषा सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें माननीय गृह राज्य मंत्री श्री किरेन रिजिजू मुख्य अतिथि रहे ।
- (ii) दिनांक 26 मार्च, 2018 को एनडीएमसी कन्वेन्शन सेंटर में हिन्दी के प्रचार प्रसार हेतु माइक्रोसॉफ्ट/गूगल जैसी अन्य संस्थाओं के साथ माननीय गृह राज्य मंत्री जी की अध्यक्षता में बैठक हुई।
- (iii) विभाग के वार्षिक कार्यक्रम 2018-19 को तैयार कर माननीय गृह राज्य मंत्री जी के अनुमोदन एवं हस्ताक्षरार्थ के पश्चात विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करवाया गया तथा मुद्रण हेतु प्रेस में दिया गया ।
- (iv) राजभाषा विभाग के वर्ष 2018 के डायरी एवं कैलेंडरों का वितरण माननीय राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों, राज्य के राज्यपालों, संसद सदस्यों एवं भारत सरकार के उच्च अधिकारियों सहित सभी मंत्रालयों/विभागों, बैंकों एवं उपक्रमों इत्यादि में किया गया ।
- (v) देश के विभिन्न नगरों में 26 नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकों का आयोजन किया गया जिनमें राजभाषा नीति के कार्यान्वयन और इस संबंध में जारी कार्यकारी आदेशों के अनुपालन की स्थिति और उसमें सुधार के उपायों पर चर्चा की जाती है ।
- (vi) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के गठन एवं कार्यों की समीक्षा संबंधी कार्य किया गया ।
- (vii) विभाग में मार्च, 2018 माह में सभी 82 शिकायतों का निपटान कर दिया गया ।
- (viii) संस्थान के कार्यशाला एकक द्वारा दिनांक 05/03/2018 से 09/03/2018 तक 463वीं गहन हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें 45 कार्मिकों ने भाग लिया।
- (ix) संस्थान के कार्यशाला एकक द्वारा दिनांक 19/03/2018 से 23/03/2018 तक अभिमुखी प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें 23 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

- (x) राजभाषा विभाग द्वारा केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से देश के विभिन्न शहरों में 03 हिंदी कंप्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करवाए गए ।
- (xi) विभिन्न गृह पत्रिकाओं के लिए माननीय गृह मंत्री / सचिव / संयुक्त सचिव के संदेश तैयार कर भेजे गए ।
- (xii) केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो द्वारा मार्च 2018 माह में 02 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें कुल 42 प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षित करने का कार्य किया गया ।
- (xiii) मार्च 2018 में कुल 7,067 मानक पृष्ठों की अनूदित सामग्री विभिन्न मंत्रालयों / विभागों को प्रेषित की गई ।
- (xiv) 5 उप निदेशकों (राजभाषा) को संयुक्त निदेशक (राजभाषा) के पद पर पदोन्नति देने हेतु प्रस्ताव संघ लोक सेवा आयोग को भेजा गया ।
